

- कार्बन डाइऑक्साइड में 27.27% कार्बन है। कार्बन डाइसल्फाइड में 15.79% कार्बन है। सल्फरडाइऑक्साइड में 50% सल्फर है इन सूचनाओं से नियम परिलक्षित है—
(a) द्रव्यमान संरक्षण का (b) स्थिर अनुपात का
(c) गुणित अनुपात का (d) व्युत्क्रम अनुपात का
- तत्व A तथा तत्व B संयोग करके तीन भिन्न यौगिक बनाते हैं—
A के 0.3 ग्राम + B के 0.4 ग्राम → यौगिक x के 0.7 ग्राम
A के 18 ग्राम + B के 48 ग्राम → यौगिक y के 66 ग्राम
A के 40 ग्राम + B के 159.99 ग्राम → यौगिक z के 199.99 ग्राम
उपरोक्त आंकड़े उदाहरण है—
(a) सरल अनुपात का (b) विलोम अनुपात का नियम
(c) स्थिर अनुपात का नियम (d) इनमें से कोई नहीं
- निम्नलिखित में कौन गुणित अनुपात के नियम का पालन नहीं करता है—
(a) N_2O , NO , N_2O_3 , NO_2 , N_2O_5 (b) H_2O , D_2O
(c) CO , CO_2 (d) PCl_3 , PCl_5
- कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से अलग-अलग क्रिया कर CO_2 और H_2O बनाता है जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करते हैं, तब इनके द्रव्यमान का अनुपात होगा—
(a) 1 : 2 (b) 2 : 1 (c) 6 : 2 (d) 2 : 6
- 200 लीटर CO की क्रिया 50 लीटर O_2 से कराने पर कितना लीटर CO_2 बनेगा—
(a) 50 लीटर (b) 100 लीटर (c) 150 लीटर (d) 200 लीटर
- 600 घन सेमी. CO की क्रिया 200 घन सेमी. O_2 से कराने पर क्रिया पूर्ण होने के बाद गैसीय मिश्रण का आयतन होगा—
(a) 100 घन सेमी. (b) 200 घन सेमी.
(c) 600 घन सेमी. (d) इनमें से कोई नहीं
- 980 ग्राम H_2SO_4 की क्रिया 800 ग्राम $NaOH$ से कराने पर 360 ग्राम जल और सोडियम सल्फेट Na_2SO_4 प्राप्त होता है। Na_2SO_4 की मात्रा होगा—
(a) 1420 ग्राम (b) 620 ग्राम (c) 1160 ग्राम (d) 780 ग्राम
- 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन 44 ग्राम CO_2 तथा 5 ग्राम हाइड्रोजन 80 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया कर 18 ग्राम जल बनाता है यदि ये व्युत्क्रमानुपात के नियम का पालन करे तो तीसरा यौगिक होगा—
(a) C_2H_2 (b) C_2H_6 (c) C_4H_{10} (d) CH_4
- एल्युमिनियम के ऑक्साइड एल्युमिनियम 52.2% तथा कार्बन का ऑक्साइड में कार्बन 27.27% हो तो एल्युमिनियम के कार्बाइड में Al का प्रतिशत होगा—
(a) 75% (b) 76% (c) 80% (d) None
- निम्नलिखित में न्यूनतम अणुभार का यौगिक जिसमें $N = 46.67\%$ है—
(a) NH_2CONH_2 (b) N_2O (c) NO (d) NH_3
- 20 लीटर मथेन (CH_4) के पूर्ण दहन के लिए कितना वायु आवश्यक होगी—
(a) 20 ली. (b) 40 ली. (c) 100 ली. (d) 200 ली.
- निम्नलिखित में कौन सा युग्म स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं करता है—
(a) H_2O और H_2O_2 (b) CH_4 और CD_4
(c) N_2O , NO , N_2O_3 , NO_2 (d) PCl_3 , PCl_5
- जल और हाइड्रोजन पराक्साइड में ऑक्सीजन के विभिन्न भार जो हाइड्रोजन के निश्चित भार से संयोग करते हैं 1 : 2 में होते हैं। इन आंकड़ों से कौन से नियम की पुष्टि होती है—
(a) स्थिर अनुपात (b) गुणित अनुपात
(c) गैलुसैक का नियम (d) द्रव्यअविनाशी नियम
- द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन से सम्बन्धित सूत्र और सम्बन्धित वैज्ञानिक क्रमशः है—
(a) $E = \frac{1}{2}mu^2$, डाल्टन (b) $E = h\nu$, प्लांक
(c) $E = mc^2$, आइन्स्टीन (d) $E = Mgh$, रदरफोर्ड
- कार्बन मोनो ऑक्साइड के पांच नमूनों को विभिन्न विधियों से निर्मित किया गया प्रत्येक में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 6 : 8 पाया गया जिस नियम की इससे पुष्टि होती है उसे प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थे—
(a) रशियन (b) फ्रेंच (c) इंगलिश (d) जर्मन
- $Na_2CO_3 \cdot nH_2O$ के 1 मोल का द्रव्यमान 196 ग्राम हो तो n का मान होगा—
(a) 1 (b) 3 (c) 5 (d) None
- यदि 10 ग्राम तत्व A के ओर 20 ग्राम तत्व B के आपस में संयोग कर एक यौगिक बनाते हैं और A और C 2 : 5 में संयोग करते हैं, तो B और C किस अनुपात में संयोग करेंगे—
(a) 2 : 3 (b) 1 : 5 (c) 4 : 5 (d) 1 : 1
- निम्नलिखित में कौन सा कथन द्रव्यअविनाशी नियम का पालन करता है—
(a) 200 ग्राम $CaCO_3$ को गर्म करने पर 112 ग्राम अवशेष का बचना
(b) लोहे को नम वातावरण में छोड़ने पर लोहे के द्रव्यमान में वृद्धि
(c) 2 ग्राम H_2 और 16 ग्राम O_2 आपस में क्रिया कर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है
(d) उपरोक्त सभी
- एक प्रयोग में 0.24 ग्राम Mg को जलाने पर 0.40 ग्राम MgO तथा दूसरे प्रयोग में 210 ग्राम Mg को जलाने पर 350 ग्राम MgO बना तो ये आंकड़े किस नियम की पुष्टि करते हैं—
(a) स्थिर अनुपात (b) तुल्यता अनुपात
(c) बहुगुण (d) द्रव्यअविनाशी नियम
- दो समतल दर्पणों के बीच का कोण क्या होगा? जबकि उनके बीच में रखी वस्तु के प्रतिबिम्बों की संख्या 5 है
(a) 60° (b) 90° (c) 45° (d) 72°
- निम्नलिखित में से किस अक्षर में पार्श्व-उत्क्रमण आभास नहीं होगा?
(a) Z (b) P (c) Q (d) T
- खतरे के सिग्नल लाल रंग के ही बनाये जाते हैं, क्योंकि—
(a) लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है
(b) बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है
(c) बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है
(d) None
- 100 सेमी की दूरी से आशुतोष समतल दर्पण की ओर जा रहा है। यदि आशुतोष की चाल 4 सेमी/सेकेण्ड हो तो कितने समय बाद आशुतोष और उसके प्रतिबिम्ब के बीच की दूरी 120 सेमी रह जायेगी?
(a) 5 सेकेण्ड बाद (b) 15 सेकेण्ड बाद
(c) 10 सेकेण्ड बाद (d) 20 सेकेण्ड बाद
- सौरभ समतल दर्पण की ओर 10 सेमी/सेकेण्ड की चाल से जा रहा है। दर्पण के सापेक्ष प्रतिबिम्ब की चाल क्या होगी?
(a) 10 सेमी/सेकेण्ड (b) 20 सेमी/सेकेण्ड
(c) 5 सेमी/सेकेण्ड (d) None
- समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है—
(a) शून्य (b) 50 सेमी (c) अनन्त (d) None

26. समतल दर्पण से बने किसी वस्तु के प्रतिबिम्ब के सम्बन्ध में असत्य है—
 (a) प्रतिबिम्ब आभासी (b) प्रतिबिम्ब सीधा
 (c) प्रतिबिम्ब उल्टा (d) प्रतिबिम्ब वस्तु के बराबर
27. समतल दर्पण के सामने 50 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु है। यदि दर्पण को 10 सेमी पीछे कर दे तो प्रतिबिम्ब कितना पीछे हट जायेगा?
 (a) 10 सेमी (b) 20 सेमी (c) 5 सेमी (d) None
28. एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लम्बवत् आपतित हो रही है। यदि समतल दर्पण को 30° घुमा दिया जाय तो परावर्तित किरण द्वारा दर्पण के साथ बना कोण होगा?
 (a) 30° (b) 60° (c) 70° (d) 15°
29. समतल दर्पण के सामने 40 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु है। वस्तु से कितना पीछे कोई व्यक्ति खड़ा हो कि व्यक्ति से वस्तु के प्रतिबिम्ब की दूरी 140 सेमी हो?
 (a) 40 सेमी (b) 60 सेमी (c) 100 सेमी (d) 80 सेमी
30. समतल दर्पण के सामने 1000 सेमी पर सौरभ है, वह 50 सेमी/से की चाल से दर्पण की ओर जा रहा है तो 8 सेकेण्ड बाद सौरभ और उसके प्रतिबिम्ब के बीच की दूरी क्या होगी—
 (a) 1200 सेमी (b) 600 सेमी (c) 800 सेमी (d) 400 सेमी
31. दो समतल दर्पण किसी कोण पर झुके हुए हैं, उनमें से किसी एक दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दूसरे के समान्तर चलती है तथा दूसरे दर्पण से परावर्तन के बाद पहले दर्पण के समान्तर हो जाती है तो दोनों दर्पणों के बीच का कोण क्या होगा?
 (a) 45° (b) 30° (c) 90° (d) 60°
32. समतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण तथा परावर्तित प्रकाश किरण के बीच का कोण 70° है तो परावर्तित किरण द्वारा परावर्तक तल के साथ बना कोण होगा—
 (a) 65° (b) 55° (c) 35° (d) 20°
33. समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु तथा उसके प्रतिबिम्ब के बीच की दूरी 90 सेमी है तो दर्पण से प्रतिबिम्ब की दूरी क्या होगी?
 (a) 90 सेमी (b) 45 सेमी (c) 180 सेमी (d) 22.5 सेमी
34. समतल दर्पण पर लम्बवत् आपतित प्रकाश किरण का आपतन कोण क्या होगा?
 (a) 0° (b) 90° (c) 45° (d) 60°
35. समतल दर्पण की क्षमता होती है—
 (a) शून्य (b) अनन्त (c) 100 (d) none
36. गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में सम्बन्ध होता है—
 (a) $2f=R$ (b) $R=f/2$ (c) $2R=f$ (d) none
37. निम्नलिखित में सदिश राशि नहीं है—
 (a) त्वरण (b) बल (c) बल-आघूर्ण (d) विद्युत धारा
38. निम्नलिखित में से सदिश राशि है—
 (a) कार्य (b) संवेग (c) दूरी (d) None
39. यदि एक पहिया एक घंटे में 720 चक्कर लगाता है तो यह एक सेकेण्ड में कितना रेडियन कोण तय करेगा?
 (a) $\pi/5$ रेडियन (b) $\frac{2\pi}{5}$ रेडियन (c) $\frac{3\pi}{5}$ रेडियन (d) $\frac{4\pi}{5}$ रेडियन
40. एक 100 सेमी. लंबे लोलक (पेण्डुलम) द्वारा बनाये गये कोण की डिग्री में माप क्या है, यदि इसका अग्र भाग दोलन करता हुआ 10 सेमी. का चाप बनाता है?
 (a) $5^\circ 43' 38''$ (b) $7^\circ 43' 38''$ (c) $5^\circ 34' 18''$ (d) $7^\circ 34' 18''$
41. यदि एक पेण्डुलम का अग्र भाग दोलन करता हुआ 50 सेमी का चाप बनाता है तथा स्थिर बिंदु पर 60° का कोण बनाता है, तो पेण्डुलम की लंबाई है
 (a) 43.72 सेमी (b) 45.72 सेमी (c) 47.72 सेमी (d) 45.27 सेमी
42. 1 बजकर 30 मिनट पर घड़ी के दोनों सूइयों के बीच का माप रेडियन में है।
 (a) $\frac{3\pi}{4}$ रेडियन (b) $\frac{2\pi}{3}$ रेडियन (c) $\frac{5\pi}{12}$ रेडियन (d) $\frac{5\pi}{6}$ रेडियन
43. एक रेलगाड़ी 1750 मी0 त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर 66 किमी0 प्रति घण्टा की दर से दौड़ रही है तो रेलगाड़ी 10 से0 में अपनी प्रारम्भिक स्थिति से कोण बनायेगी—
 (a) $\left(\frac{11}{95}\right)^\circ$ (b) $\left(\frac{6\pi}{85}\right)^\circ$ (c) $\left(\frac{7\pi}{90}\right)^\circ$ (d) $\left(\frac{11}{105}\right)^\circ$
44. निम्न सम्बन्ध में से सम्बन्ध सत्य है।—
 (a) $\sec 1^\circ = \sec 1^\circ$ (b) $\sec 1^\circ > \sec 1^\circ$
 (c) $\sec 1^\circ < \sec 1^\circ$ (d) कोई नहीं
45. एक 5 सेमी. त्रिज्या का छोटा पहिया 45 सेमी. त्रिज्या वाले बड़े पहिये पर बिना फिसले लुढ़कता है। लुढ़कते वृत्त के 2 पूर्ण चक्कर पश्चात् बड़े वृत्त के केन्द्र पर बना कोण होगा—
 (a) $\frac{7\pi}{9}$ (b) $\frac{3\pi}{9}$ (c) $\frac{2\pi}{9}$ (d) $\frac{4\pi}{9}$
46. 1° का मान होता है।
 (a) $\left(\frac{200}{\pi}\right)^\circ$ (b) $\left(\frac{100}{\pi}\right)^\circ$ (c) $\left(\frac{\pi}{200}\right)^\circ$ (d) कोई नहीं
47. $5\frac{1}{2}$ फीट ऊँचाई का एक मनुष्य किसी बिन्दु पर $15''$ का कोण अंतरित करता है। मनुष्य से बिन्दु की दूरी है—
 (a) 22680 मी. (b) 21568 मी. (c) 27580 मी. (d) 19580 मी.
48. एक दोलन की लम्बाई 75 सेमी. है, इसके दोलन द्वारा बने कोण की माप रेडियन में होगी यदि चाप की लम्बाई 21 सेमी है—
 (a) $\frac{2}{15}$ रेडियन (b) $\frac{7}{25}$ रेडियन (c) $\frac{1}{5}$ रेडियन (d) $\frac{6}{5}$ रेडियन
49. 55 मीटर ऊँची मीनार कितनी दूरी पर 5 मिनट का कोण अंतरित करेगी—
 (a) 37.8 किमी. (b) 25.2 किमी. (c) 32.7 किमी. (d) None
50. किसी चतुर्भुज के आन्तरिक कोण समान्तर श्रेणी में स्थित है। जिसके महत्तम कोण का रेडियन में मान तथा न्यूनतम कोण का ग्रेड में मान का अनुपात $\pi : 40$ है तो महत्तम कोण होगा—
 (a) 120° (b) 135° (c) 150° (d) 145°
51. पृथ्वी से चन्द्रमा की दूरी 360000 किमी. है और इसका चन्द्रमा के व्यास द्वारा, किसी मनुष्य की आँख पर $31'$ का कोण बनाता है। चन्द्रमा का व्यास होगा—
 (a) 3247.62 Km (b) 3347.62 Km
 (c) 3367.45 Km (d) इनमें से कोई नहीं

52. एक खिलाड़ी 225 मी. त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर दौड़ते समय 8 से. में अपनी प्रारम्भिक दिशा से 30° घूम जाता है, तो वह उस वृत्ताकार पथ के 5 पूरे चक्कर कितने समय में लगायेगा—
 (a) 6 मिनट (b) 7 मिनट (c) 8 मिनट (d) 9 मिनट
53. निम्न में सम्बन्ध असत्य है—
 (a) $\sin 1^\circ > \sin 1^0$ (b) $\tan 1^\circ > \tan 1^0$
 (c) $\cos 1^\circ > \cos 1^0$ (d) $\operatorname{cosec} 1^\circ > \operatorname{cosec} 1^0$
54. षाष्टिक पद्धति, वृत्तीय पद्धति, शक्ति पद्धति में सम्बन्ध होता है—
 (a) $\frac{D}{90} = \frac{2R}{\pi} = \frac{G}{100}$ (b) $\frac{D}{90} = \frac{R}{2\pi} = \frac{G}{100}$
 (c) $\frac{D}{90} = \frac{R}{\pi} = \frac{G}{100}$ (d) इनमें से कोई नहीं
55. एक पट्टा 50 सेमी. व्यास की पुली से गुजरता हुआ पुल्ली पर 75° का कोण छादित करता है। पुली के संपर्क में पट्टे की लगभग लम्बाई है—
 (a) 65.43 cm (b) 32.74 cm (c) 18.75 cm (d) None
56. यदि एक बहुभुज के आन्तरिक कोणों का योगफल वाह्य कोणों के योगफल का 12 गुना हो तो इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या होगी—
 (a) 24 (b) 20 (c) 26 (d) इनमें से कोई नहीं
57. यदि दो नियमित बहुभुजों की भुजाओं की संख्या में 1 : 5 का अनुपात है और उनके आन्तरिक कोणों का अनुपात 15 : 19 है। प्रत्येक में भुजाओं की संख्या है—
 (a) 6, 17 (b) 8, 20 (c) 8, 40 (d) 7, 15
58. किसी चतुर्भुज के कोण समान्तर श्रेणी में हैं। सबसे बड़े कोण का मान 120° है। सबसे छोटे कोण का मान रेडियन में होगा—
 (a) $\left(\frac{\pi}{3}\right)^c$ (b) $\left(\frac{4\pi}{9}\right)^c$ (c) $\left(\frac{5\pi}{9}\right)^c$ (d) None
59. किन्हीं दो सम बहुभुजों के आन्तरिक कोणों में अनुपात 3 : 4 है। जबकि भुजाओं में अनुपात 2 : 3 है। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्यायें होगी—
 (a) 6, 12 (b) 8, 20 (c) 10, 25 (d) 4, 6
60. किसी पंचभुज के आन्तरिक कोण समान्तर श्रेणी में है यदि महत्तम कोण का मान 150° हो तो न्यूनतम कोण का मान होगा—
 (a) 32° (b) 66° (c) 75° (d) 55°
61. 100 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या है—
 (a) 100 (b) 98 (c) 4950 (d) 4850
62. दो समबहुभुजों में भुजाओं की संख्या 5:4 के अनुपात में हैं और बहुभुजों के हर भीतरी कोणों में अन्तर 6° है। भुजाओं की संख्या है—
 (a) 15, 12 (b) 5, 4 (c) 10, 8 (d) 20, 16
63. दो समबहुभुजों में भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:6 है और उनके प्रत्येक आन्तरिक कोणों का अनुपात 24:25 है। तदनुसार उन बहुभुजों की भुजाओं की संख्या है—
 (a) 20, 24 (b) 15, 18 (c) 10, 12 (d) 5, 6
64. एक समबहुभुज का प्रत्येक भीतरी कोण बाह्य कोण से दुगुना है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या है—
 (a) 8 (b) 6 (c) 5 (d) 7
65. यदि n भुजाओं वाले एक समबहुभुज में प्रत्येक आन्तरिक कोण प्रत्येक बाह्य कोण का दुगुना हो तो n का मान होगा—
 (a) 8 (b) 10 (c) 5 (d) 6
66. घड़ी की घंटे एवं मिनट की सुईयों संपाती होती है—
 (a) 64 मिनट में (b) $65\frac{5}{11}$ मिनट में
 (c) $64\frac{5}{11}$ मिनट में (d) 63 मिनट में
67. 2 बजे से $2\frac{1}{4}$ बजे के मध्य किसी घड़ी की घण्टे तथा मिनट की सुईयों के मध्य 45° का कोण किस समय बनेगा—
 (a) 2 बजकर $2\frac{8}{11}$ मिनट (b) 2 बजकर $7\frac{1}{2}$ मिनट
 (c) 2 बजकर $2\frac{1}{2}$ मिनट (d) इनमें से कोई नहीं
68. किसी घड़ी की सुईयों प्रत्येक 64 मिनट बाद संपाती होती है। 24 घंटे बाद घड़ी द्वारा दर्शाये गये समय में त्रुटि होगी—
 (a) $35\frac{122}{143}$ मिनट (b) $28\frac{2}{11}$ मिनट
 (c) $34\frac{6}{13}$ मिनट (d) $32\frac{8}{11}$ मिनट
69. $11\frac{1}{9}$ मिनट का समय तय करने में घड़ी की मिनट वाली सुई जो कोण घूमेगी—
 (a) $66^\circ 40'$ (b) $66^\circ 28'$ (c) $66^\circ 27'$ (d) $66^\circ 36'$
70. दो घड़ियों की मिनट की सुईयों 5 सेमी और 6 सेमी लम्बी है। 15 मिनट में दोनों सुईयों द्वारा तय किये गये क्षेत्रफल का अनुपात होगा—
 (a) 4 : 9 (b) 9 : 4 (c) 36 : 25 (d) 25 : 36
71. एक घड़ी प्रति 3 मिनट में 5 सेकेण्ड तेज हो जाती है। तो घड़ी 6 बजे सुबह मिलाने के बाद ठीक दोपहर उस घड़ी में बजे होगा—
 (a) 1 pm (b) 1: 20 pm (c) 1.30 pm (d) 12:10 pm
72. किसी घड़ी में 8 बजे तथा 9 बजे के बीच में किस समय मिनट की सुई घण्टे की सुई के संपाती होगी—
 (a) 8 बजकर $53\frac{7}{11}$ मिनट (b) 8 बजकर $43\frac{7}{11}$ मिनट
 (c) 8 बजकर 33 मिनट (d) इनमें से कोई नहीं
73. कोई घड़ी सोमवार सुबह 8 बजे, 4 मिनट कम समय बता रही थी जबकि बुधवार सुबह 8 बजे, 2 मिनट अधिक समय बता रही थी तो घड़ी ने ठीक समय बताया—
 (a) मंगलवार सुबह 11 बजे (b) मंगलवार शाम 4 बजे
 (c) बुधवार रात्रि 3 बजे (d) इनमें से कोई नहीं
74. एक घड़ी की मिनट की सुई 35 सेमी. लम्बी है। 18 मिनट में इसकी नोक दूरी तय करेगी—
 (a) 66 सेमी. (b) 132 सेमी. (c) 33 सेमी. (d) 75 सेमी.
75. किसी घड़ी में 9 बजे तथा 10 बजे के बीच किस समय घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुईयां एक सीधी रेखा में होगी किन्तु संपाती नहीं
 (a) 9 बजकर $13\frac{4}{11}$ मिनट (b) 9 बजकर $16\frac{4}{11}$ मिनट
 (c) 9 बजकर $22\frac{3}{11}$ मिनट (d) इनमें से कोई नहीं

IERT/Polytechnic/D.Pharma			शक्ति कोचिंग		
<p>"IERT/Poly/D.Pharma का नया बैच 18-Jul से प्रारंभ"</p> <p>"IERT/Poly Eng. Medium (Separate Batch) from 18-Jul-2018"</p> <p>स्थान: सिटी हॉस्पिटल Campus, जवाहर लाल नेहरू रोड, जॉर्ज टाउन, इलाहाबाद</p> <p>Call 9335154592</p>					
Next Test			29-Jul-18		
<p>SHAKTI COACHING</p> <p>IERT Test-2 (15-Jul-2018) ANSWER KEY</p>					
Question	Answer	Question	Answer	Question	Answer
1	D	26	C	51	A
2	A	27	B	52	C
3	B	28	B	53	A
4	C	29	B	54	A
5	B	30	A	55	B
6	C	31	D	56	C
7	A	32	B	57	C
8	D	33	B	58	A
9	A	34	A	59	D
10	C	35	A	60	B
11	D	36	A	61	D
12	B	37	D	62	A
13	B	38	B	63	C
14	C	39	B	64	B
15	B	40	A	65	D
16	C	41	C	66	B
17	C	42	A	67	A
18	D	43	D	68	D
19	A	44	B	69	A
20	A	45	D	70	D
21	D	46	C	71	D
22	D	47	A	72	B
23	C	48	B	73	B
24	A	49	A	74	A
25	C	50	C	75	B
SHAKTI COACHING					
सिटी हॉस्पिटल कैम्पस, जवाहर लाल नेहरू रोड, जॉर्ज टाउन, इलाहाबाद					
Contact: 9335154592 Email: info@shakticoaching.in					
www.shakticoaching.in					